

**HGIEL/HO/COMPLIANCE/2025-26/499****July 07, 2025****BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400 001

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, C-1, Block G  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai- 400 051

Scrip Code- 541019

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper publication pertaining to submission of Notice to Equity Shareholders of the Company regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed copies of the notice published in the following newspapers regarding transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in accordance with the requirements of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time:

1. Financial Express (English) – All India Edition;
2. Nafa Nuksan (Regional Language) – Rajasthan Edition

The above information is also being uploaded on the Company's website at [www.hginfra.com](http://www.hginfra.com).

You are requested to kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **H.G. Infra Engineering Limited**

**Ankita Mehra**

Company Secretary & Compliance Officer  
ACS No. - 33288

Encl: As above

**H.G. INFRA ENGINEERING LTD.**



Total	13,300			
-------	--------	--	--	--

The auction will be conducted on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on **July 08, 2025 (Tuesday)**. Individual investors can place bids as per the non-competitive scheme also through the Retail Direct portal (<https://rbiretaildirect.org.in>). For further details, please refer to RBI press release dated **July 04, 2025 (Friday)** on RBI website [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money."**



**HGIEL**  
We Make People Move...

## H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049

**Regd. Office:** 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur,  
Rajasthan-342001 Tel.:0291-2515327

**Corp. Office:** III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg,  
C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001, Tel.: 0141-4106040-41,  
Website: [www.hginfra.com](http://www.hginfra.com), Email: [cs@hginfra.com](mailto:cs@hginfra.com)

### NOTICE OF TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND ("IEPF") AUTHORITY

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of section 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("The Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("the Rules") as amended, the Equity Shares of the company in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred by the company in the demat account of the IEPF Authority.

In compliance with the said Rules, Individual communication has been sent to all concerned shareholder(s) who had not claimed dividend for seven consecutive years i.e. from 2017-18 and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority. The complete details of these shareholders(s) are updated on the Company Website at [www.hginfra.com](http://www.hginfra.com). Shareholder(s) are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Demat Account.

The Company would inform respective depositories of the shareholder by way of corporate action for transfer of such shares to the demat account of the IEPF authority established by Central Government.

Shareholders are requested to forward the requisite documents, as per the above-mentioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) for claiming the dividend on or before October 12, 2025 and avoid the transfer of your shares to IEPF Authority.

In the event valid claims are not received from any of the shareholders on or before October 12, 2025, the Company with a view to comply with the rules will proceed to transfer the Equity Shares along with the unclaimed dividend for the aforesaid period in favour of IEPF authority without any further notice in accordance with the Rules.

Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of shares/ unclaimed dividend transferred to IEPF pursuant to the said Rules

Shareholders whose dividend / shares have been transferred to IEPF can claim the dividend and / or shares by submitting an online application electronically (web form-IEPF5) available on the website of the Ministry of Corporate Affairs at [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in).

For any queries on the subject matter, shareholder(s) may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, MUFG Intime India Private Limited at the below mentioned address: MUFG Intime India Private Limited Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel No.: 011-49411000, e-mail: [iepf.shares@linkintime.co.in](mailto:iepf.shares@linkintime.co.in).

**For H.G. Infra Engineering Limited**

Sd/-

Ankita Mehra

Place : Jaipur

Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 05, 2025

M. No- A33288

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2025 shall be sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / RTA (KFIN Technologies Ltd) / Depository participant(s) as on June 27, 2025. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company [www.apollotyres.com](http://www.apollotyres.com), on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and on the e stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, where the Company's shares are listed.

A letter containing the weblink of the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/ RTA/Depository Participant(s).

The facility of casting the votes by the Members('e-Voting') will be provided by NSDL and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The remote e-Voting period commences on July 28, 2025 (10:00 AM) (IST) and ends on July 30, 2025 (5:00 PM) (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of July 24, 2025 may cast their vote by remote e-Voting or by e-Voting at the time of AGM. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members are requested to update their email addresses and bank account details in the following manner:

In case, Physical Holding	By submitting Form ISR-1 along with supporting documents. The form is available on the Company's website at <a href="https://corporate.apollotyres.com/investors/corporate-governance/#?activeTab=Others">https://corporate.apollotyres.com/investors/corporate-governance/#?activeTab=Others</a> and on the website of the Company's RTA at <a href="https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd">https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd</a> . Please forward the duly signed request letter, self attested copy of PAN card and address proof along with Specimen signature of the Member duly attested by a Manager of any Bank with their letter head official seal indicating the A/c Nos. of the account holder(s) held with the bank - along with cancelled cheque leaf to below mentioned address. KFIN Technologies Limited Unit: Apollo Tyres Limited, RIS Department, 6th Floor, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32   Financial District Nanakramguda   Serilingampally Mandal Hyderabad - 500032   India Toll Free Number:1800 3094 001
In case, Demat Holding	Please contact your DP and update your email addresses and Bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 14, 2025 has recommended a Final Dividend of ₹ 5.00 per Equity Share (i.e. 500%) per Equity Share of face value of ₹ 1 each for FY25. The dividend, subject to the approval of the Members, will be paid within 30 days from the date of AGM to the Members whose names appear in the Register of Members as on the Record date of July 11, 2025 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details.

To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

Members may note that the Income Tax Act, 1961 (IT Act), as amended by the Finance Act, 2020 mandates that dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of Dividend.

In order to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN and Category as per the IT Act with their Depository Participants in case shares are held in Dematerialized form. In case shares are held in physical form, aforementioned details need to be updated with the RTA of the Company by quoting their name and folio number. To avail the benefit of non-deduction / lower deduction of TDS, Members are requested to submit necessary documents/ declarations on the website of RTA at <https://ris.kfintech.com/form15/> or you can send an email to [cinward.ris@kfintech.com](mailto:cinward.ris@kfintech.com). Members can send the Tax Exemption Forms to KFIN, Hyderabad Address, if they are not able to provide the same through electronic mode. The aforesaid declarations and documents need to be submitted by Members by July 14, 2025.

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window is open from **July 7, 2025, to January 6, 2026** for re-lodgement of share transfer deeds. This applies to transfer deeds lodged before April 1, 2019, that were rejected or returned due to deficiencies and missed the March 31, 2021 deadline. Members are requested to re-lodge such deeds within this period to complete the share transfer.

The Notice of AGM and Annual Report for FY25 will be sent to Members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

**For Apollo Tyres Ltd**

Sd/-

Seema Thapar

Date: July 7, 2025

Place: Gurugram

Company Secretary & Compliance Officer



## गिरे

### सुरंग, पुल वाले हाइवे सेगमेंट्स पर टोल शुल्क में 50 प्रतिशत तक की कटौती

रे राज्यों के व्यापारियों के चुनौतियों से सी के हिसाब रहे हैं। उन्होंने बाग, प्रीत और मोती में 1,000 से एने वाहनों के हुए हैं। कार न विभाग से ण पत्र करने में चिंता जताई नों को अन्य लिए जरूरी या अपेक्षाकृत नेकिन अब ना है कि उन्हें लताओं का रहा है।

नयी दिल्ली@एजेंसी। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों के लिए टोल दरों में 50 प्रतिशत तक की कटौती की है जिनमें सुरंगों, पुलों, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़क जैसी संरचनाएं हैं। यह कदम मोटर चालकों के लिए यात्रा लागत को कम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्कों का संग्रह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुरूप एकत्र किए जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2008 के नियमों में संशोधन किया है और टोल शुल्क की गणना के लिए एक नई पद्धति या फॉर्मूले को अधिसूचित किया है।

जारी इस अधिसूचना के मुताबिक, 'राष्ट्रीय राजमार्ग के संरचना या संरचनाओं वाले खंड के उपयोग के लिए शुल्क दर की गणना, संरचना की लंबाई को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की लंबाई का दस गुना जोड़कर, या राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, की जाएगी।' इसमें संरचना का मतलब एक स्वतंत्र पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या एलिवेटेड राजमार्ग से है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक किलोमीटर संरचना के लिए उपयोगकर्ता नियमित टोल का दस गुना भुगतान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा टोल गणना पद्धति का उद्देश्य इस तरह के बुनियादी ढांचे से जुड़ी उच्च निर्माण लागत की भरपाई करना है।

## 1 वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 1.15 बिलियन उत्पादन करने के लिए तैयार : रिपोर्ट

1 भारत वित्त वर्ष 2025-26 रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल नकारी एक रिपोर्ट में दी गई। नत आंकड़ों के अनुसार, देश वित्त वर्ष 2025 में 1,047.6 उच्च स्तर को छू गया, जो त्रिशत की औसत वार्षिक दर

न को अधिक कुशल और से नीतिगत सुधारों की एक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस और ऑपरेटर (एमडीओ) 00 प्रतिशत एफडीआई की 1 की नियमित नीलामी जैसी नू उत्पादन को बढ़ावा देने में र खनिज (विकास और संशोधन ने भी नियामक प्राइवेट प्लेयर्स को आकर्षित गार्ड है। कोयला उत्पादन में स्त्री मांग के कारण हुई है, कुल कोल डिस्पैच में 82 में कहा गया है कि उद्योगों,

घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण भारत की कुल कोयला खपत वित्त वर्ष 2021 में 922.2 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1,270 मिलियन टन हो गई। कुल खपत में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 77.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 82.5% हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर इस बदलाव को जनवरी तक 184 कोयला खदानों के आवंटन से समर्थन मिला है, जिनमें से 65 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, इन सक्रिय खदानों ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग 136.59 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है। सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल ईंडिया लि. ने वित्त वर्ष 25 में कुल उत्पादन में 74% का योगदान दिया। प्राइवेट और कैपिटल माइनर्स ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। मार्च में शुरू की गई कोयला ब्लॉक नीलामी के 12वें दौर में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 28 और खदानों की पेशकश की गई। इस बीच, बेहतर सफाई स्थितियों और सहायक सरकारी नीतियों के कारण कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रेंड वित्त वर्ष 2026 में जारी रहने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों के लिए कोयला अधिक किफायती हो जाएगा।



# HGIEL

We Make People Move...

## एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L45201RJ2003PLC018049

पंजीकृत कार्यालय : 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर,  
राजस्थान-342001, फोन: 0291-2515327  
कॉर्पोरेट कार्यालय : तृतीय मंजिल, शील मोहर प्लाजा, ए-1, तिलक मार्ग,  
सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान - 302001 फोन: 0141-4106040-41  
वेबसाइट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

## निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईपीएफ") प्राधिकरण को कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016, (नियम) के साथ संशोधित, कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

उक्त नियमों के अनुपालन में, उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिन्होंने 2017-18 से लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया था और जिनके शेयर IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं। इन शेयरधारकों का पूरा विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.hginfra.com](http://www.hginfra.com) पर अपडेट किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे IEPF डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाने योग्य शेयरों के विवरण को सत्यापित करें।

कंपनी ऐसे शेयरों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरधारक के संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त संचार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) को 12 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले लाभांश का दावा करने के लिए भेजें और अपने शेयरों को IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित होने से बचाएं।

यदि 12 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले किसी भी शेयरधारक से वैध दावे प्राप्त नहीं होते हैं तो कंपनी नियमों का पालन करने के उद्देश्य से नियमों के अनुसार बिना किसी और नोटिस के IEPF प्राधिकरण के पक्ष में पूर्वोक्त अवधि के लिए दावा न किए गए लाभांश के साथ इक्विटी शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी।

कृपया यह भी ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार IEPF को हस्तांतरित शेयरों/अदावा किए गए लाभांश के संबंध में कंपनी को खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों का लाभांश/शेयर IEPF में स्थानांतरित हो गया है, वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन आवेदन (वेब फॉर्म-IEPF5) जमा करके लाभांश और/या शेयरों का दावा कर सकते हैं।

विषय वस्तु पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, MUFG Intime India Private Limited से नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं: MUFG Intime India Private Limited नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट NH 2, C-1 ब्लॉक LSC, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058, टेलीफोन नंबर: 011-49411000, ई-मेल: [iepf.shares@linkintime.co.in](mailto:iepf.shares@linkintime.co.in).

कृते-एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड  
हस्ता./-

अंकिता मेहरा

स्थान: जयपुर  
दिनांक: 05 जुलाई 2025

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)  
M. No- A33288